



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 31—नवम्बर 6, 2009 (कर्तिक 9, 1931)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31—NOVEMBER 6, 2009 (KARTIKA 9, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 9 अक्टूबर 2009

एसबीडी क्र.09/09-10--एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप-धारा (1) के खंड (घ) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री अश्वनी कुमार गुप्ता, 85 ग्रीन पार्क, कूल रोड, जालन्धर, को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक पद पर दिनांक 9 अक्टूबर 2009 से 8 अक्टूबर 2012 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400021, दिनांक 8 अक्टूबर 2009

सं. एसएमआर/02--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श और केन्द्र शासन की पूर्व मंजूरी के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और बैंक) 1998 विनियमन 20 अक्टूबर, 2003 तक यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन किए जाना प्रस्तावित किया है, अर्थात् :--

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ (1) ये विनियमन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और बैंक) संशोधन विनियमन, 2009 कहलाएंगे (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ;
2. विनियमन 2 और 4 के संशोधन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और बैंक) विनियमन, 1998, 20 अक्टूबर, 2003 तक यथासंशोधित में :

- (i) विनियमन 2 में, खंड (पी) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्--

“(पी) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या योजनाओं, या प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशानिर्देशों और अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2बी) के खंड (सी) के परंतुक अधीन भारतीय रिजर्व बैंक की प्रदत्त अधिकारों के अधीन संरचित दिशानिर्देशों अधिनियम या योजना या प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशानिर्देशों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संरचित दिशानिर्देशों में परिभाषित है और अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2बी) के खंड (सी) के परंतुक अधीन भारतीय रिजर्व बैंक की प्रदत्त अधिकारों के अधीन संरचित दिशानिर्देशों अधिनियम या योजना या प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशानिर्देशों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संरचित, जैसा भी मामला हो, में दिए गए समान अर्थ रखेगा”

- (ii) विनियमन 4 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम सम्मिलित किया जाएगा, यथा--

“4ए(1) बैंक इक्विटी शेयर या अधिमान्य शेयर के सार्वजनिक निर्गम या अधिमान्य आबंटन या निजी स्थापन द्वारा पूंजी जुटा सकता है।

(2) बैंक, प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया के पूंजी जुटाने से संबंधित दिशानिर्देशों, नियमों या विनियमों के अनुसार पूंजी जुटाने के प्रस्ताव तैयार करेगा।

(3) अधिमान्य शेयरों के सार्वजनिक निर्गम या अधिमान्य आबंटन या निजी स्थापन के माध्यम से पूंजी एकत्रित करने के लिए, इस प्रकार के अधिमान्य शेयरों (शाश्वत या अप्रतिदेय या प्रतिदेय) की प्रत्येक श्रेणी की संख्या और इस प्रकार बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले शेयरों की निबंधन और शर्तें, भारतीय रिजर्व बैंक की

अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2बी) की खंड (सी) के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उनके द्वारा संरचित दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित की जाएगी।

(4) बैंक प्रस्ताव की अंतिम रूप देने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण का ध्यान रखेगा और प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तुत करेगा।

(5) तत्पश्चात् अंतिम प्रस्ताव केन्द्र सरकार की उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और केन्द्र सरकार द्वारा उन निबंधनों व शर्तों के अधीन स्वीकृति दी जाएगी, जिन्हें वह उचित समझे।

(6) बैंक केन्द्र सरकार की स्वीकृति के अनुसार पूंजी उगाहेगा।

फुट नोट :--मूल विनियम भारत के राजपत्र (भाग III, धारा 4) में अधिसूचना क्र. 53 दिनांक 08.05.2000 और उसके बाद के संशोधन अधिसूचना क्र. 45 दिनांक 08.11.2003 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

मोनिका कालिया
कम्पनी सचिव

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 23 सितम्बर 2009

सं. ई-III/10(2)/09/एमएच/बीएन--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं के. चन्द्रमौलि, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (अ) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या ई-102(19)ई/ए दिनांक 17.10.1957 द्वारा मैसर्स सैचुरी टैक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एमएच/बीएन/96 जिसका पंजीकृत कार्यालय सैचुरी भवन, डॉ. एनी बेसन्ट रोड, वर्ली, मुम्बई-400025 में स्थित है, मेरे समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पर्याप्त कारणों से जो मैं उचित समझता हूँ को प्रदत्त छूट दिनांक 30.09.2008 से समाप्त करता हूँ।

के. चन्द्रमौलि
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

चैन-600014

सं. क.म.नि.रा.कार्या/अ.के.आ (त. नाडु एवं केरल)/मि.सं. के.आर. /02/2009 दिनांक 23.09.2009 जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952) 1952 की 19 की धारा 17 की उप धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी

किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहा है जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है (जैसा कि संलग्न अनुसूची एक में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है)।

सं. क.म.नि.रा.कार्या/अ.के.आ (त. नाडु एवं केरल)/मि.स. के.आर. /02/2009--जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 की 19) की धारा 17 की उप धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहा है जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, चेन्नै ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात नियोक्ता कहा गया) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसी विवरणियों संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजेंगे तथा ऐसी राशि रखेंगे तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे।
2. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2क) के खण्ड (क) के अंतर्गत समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण प्रभार प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान करेंगे।
3. लेखाओं का रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत करना, बीमा किस्तों का भुगतान, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार के भुगतान सहित सामूहिक बीमा योजना में सम्मिलित प्रशासन संबंधी सभी व्ययों को नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित तथा यथासंशोधित एवं अधिकांश कर्मचारियों की भाषा

में उसके प्रमुख बातों के अनुवाद सहित सामूहिक बीमा योजना के नियमों की प्रति स्थापना के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे।

5. यदि कोई कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि के पहले से ही सदस्य है और उनकी स्थापना में नियोजित किया जाता है नियोक्ता उन्हें तत्काल सामूहिक बीमा योजना का सदस्य बनाकर भारतीय जीवन बीमा निगम को उसकी आवश्यक किश्त का भुगतान करेंगे।
6. यदि उक्त योजना के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में वृद्धि की जाती है तो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों में वृद्धि की व्यवस्था करेंगे जिसमें उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से भी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ अधिक अनुकूल होंगे।
7. सामूहिक बीमा योजना में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर योजना के अंतर्गत देय राशि कर्मचारियों को उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त करने पर देय राशि से कम हो तो नियोक्ता, शेष भुगतान राशि कर्मचारी के नामिती (यों) विधिक वारिस (सों) को हरजाने के रूप में भुगतान करेंगे।
8. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना सामूहिक बीमा योजना के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा जहां किसी भी संशोधन से कर्मचारी के पक्ष में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को उनका दृष्टिकोण समझाने का यथोचित अवसर देंगे।
9. अतः किसी किसी कारणवश उक्त स्थापना के नियोक्ता भारतीय जीवन बीमा निगम के सामूहिक बीमा योजना के, जिसको उक्त स्थापना द्वारा पहले से अपनाया गया है, के अधीन नहीं रहते और योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को किसी भी तरह से कम किए जाने पर छूट को रद्द किया जा सकता है।
10. यदि बिना किसी कारण के भारतीय जीवन बीमा द्वारा नियत तिथि के भीतर नियोक्ता बीमा किस्त आदि का भुगतान न कर सके तथा पॉलिसी समाप्त की जाए तो छूट को रद्द किया जा सकता है।
11. यदि नियोक्ता द्वारा बीमा किस्त के भुगतान में चूक होने पर मृत सदस्य जो उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त किया जा सकता था परन्तु छूट देने के कारण उसके नामिती (यों), विधिक वारिस (सों) को बीमा लाभों के भुगतान का दायित्व नियोक्ता का होगा।
12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम मृत सदस्य के नामिती (यों) तथा विधिक वारिस (सों) जो बीमाकृत राशि के हकदार हैं को उस राशि को तथा किसी भी हाल में सभी प्रकार से पूर्ण दावों के प्राप्त होने के एक माह के भीतर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

एन. ए. नायर
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूची (I)

क्रम सं.	पूर्व अधिसूचना नंबर तथा दिनांक	क्षे.का./ उ.क्षे.का.	कोड नंबर	स्थापना का नाम	छूट की अवधि	
					से	को
1	2	3	4	5	6	7
1.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 5419 दिनांक 31.03.2009	क्षे.का. त्रिवेन्द्रम	के.आर./10782	मुक्कडन्स रेस्टोरेंट, त्रिवेन्द्रम	01.12.05	30.11.08
2.	सं. 2/1959/नि.सं.बी./छूट/ 89/भाग-1/992 दिनांक 07.05.02	क्षे.का. त्रिवेन्द्रम	के.आर./12343	केल्ट्रान कम्यूनिकेशन कॉमप्लेक्स, कुलालूर	01.07.03	30.06.06
3.	सं. 2/1959/नि.सं.बी./छूट/ 89/भाग-1/992 दिनांक 07.05.02	क्षे.का. त्रिवेन्द्रम	के.आर./12344	केल्ट्रान इक्विपमेंट कॉमप्लेक्स, कारकुलम	01.07.03	30.06.06
4.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 5419 दिनांक 09.03.2007	उप क्षे.का. कोषिककोड	के.आर./1960	द पालक्काड डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि. पालक्काड	01.03.09	29.02.12
5.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 5419 दिनांक 09.03.2007	उप क्षे.का. कोषिककोड	के.आर./17332	वीकसे पॉलिमर्स (प्रा.) लि., कोषिककोड	01.03.09	29.02.12
6.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 1357 दिनांक 22.03.2008	उप क्षे.का. कोषिककोड	के.आर./10233	द कोषिककोड सर्वोदया संघ, कोषिककोड	01.03.09	29.02.12
7.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 5419 दिनांक 09.03.2007	उप क्षे.का. कोषिककोड	के.आर./5110	द उरलुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमि.	01.03.09	28.02.12
8.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 5419 दिनांक 09.03.2007	उप क्षे.का. कोषिककोड	के.आर./11761	मध्यमान डेली, कोषिककोड	01.03.09	28.02.12
9.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 1357 दिनांक 20.02.2008	उप क्षे.का. कोषिककोड	के.आर./254	आर्य वैद्यशाला, कोटक्कल	01.05.09	30.04.12
10.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/ 1357 दिनांक 22.03.2008	उप क्षे.का. कोची	के.आर./10031	यूनाईटेड स्टीमर एजेंट्स पूल, कोची	01.04.08	31.03.11
11.	सं. 2/1959/नि.सं.बी./छूट/ 89/भाग-1-दिनांक 22.01.2001	क्षे.का. कोट्टयम	के.आर./4392	केरल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. गवि, 01.12.03 01.12.06	01.12.00 01.12.03 01.12.06	30.11.03 30.11.06 30.11.09
12.	सं. 2/1959/क.नि.सं.बी./छूट/ 89/भाग-1/1002/दिनांक 15.10.2004	उप क्षे.का. कण्णूर	के.आर./4402	केल्ट्रॉन क्रिस्टल्स कण्णूर	01.06.05	31.05.08

1	2	3	4	5	6	7
13.	सं. 2/1959/क.नि.सं.बी./छूट/ 89/भाग-1/1002/दिनांक 15.10.2004	क्षे.का. कण्णूर	के.आर./4184	केल्ट्रॉन मैग्नेटिक्स लिमिटेड, कण्णूर	01.06.05	31.05.08
14.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 22.01.2009	उप क्षे.का. कण्णूर	के.आर./18221	पॉली लैब एण्ड एक्सरेस, थलस्सेरी	01.03.09	28.02.12
15.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 22.01.2009	उप क्षे.का. कण्णूर	के.आर./18218	पॉली लैब, थलस्सेरी	01.03.08	28.02.12
16.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 5419 दिनांक 09.03.2007	उप क्षे.का. कण्णूर	के.आर./14123	टेली मेडिकल सेंटर, कण्णूर	01.03.08	28.02.11
17.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षे.का. त्रिवेन्द्रम	के.आर./10128	होटल पंकज, पालयम	01.10.08	30.09.11
18.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 22.01.2009	उप क्षे.का. कण्णूर	के.आर./14050	कुण्हीकण्णन ज्वेलरी, कण्णूर के.आर./के.एन.आर./ 14050	01.04.09	31.03.12
19.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/ 1357 दिनांक 22.03.2008	उप क्षे.का. कोची	के.आर./3265	द केरल स्टेट फाईनैशियल एंटर्प्राइसेज लिमि.	01.04.07	31.03.10
20.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/ 1357 दिनांक 22.03.2008	उप क्षे.का. कोची	के.आर./4071	यूनाइटेड ब्रिक्वरीस लिमि. अल्लपे यूनाइटेड ब्रिक्वरीस लिमि. अल्लपे	01.11.08	31.10.11
21.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/ 1357 दिनांक 22.03.2008	उप क्षे.का. कोची	के.आर./13565	अबन मेट्रो, कोची	01.10.08	30.09.11
22.	सं.2/1959/क.नि.सं.बी./ छूट/89/भाग-1/1417 दिनांक 29.12.2004	उप क्षे.का. कोची	के.आर./ 15462	बी स्तर क्रियेशन्स प्राइवेट लिमि., कोची	01.08.07	31.07.10
23.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/ 1357 दिनांक 22.03.2008	उप क्षे.का. कोची	के.आर./ 21292	जेरोन कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोची	01.12.06	30.11.08
24.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/ 1357 दिनांक 22.03.2008	उप क्षे.का. कोची	के.आर./ 3245	पॉलीक्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, त्रिशूर	01.03.09	28.02.12
25.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/ 1357 दिनांक 22.03.2008	उप क्षे.का. कोची	के.आर./ *3375	केरल अग्रो मेशनरी कॉर्पोरेशन लिमि, अथनी	01.12.08	30.11.11

1	2	3	4	5	6	7
26.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र. का. कोची	के.आर./ 13042	मलबार बिल्डिंग प्रॉडिक्ट्स लिमिटेड, त्रिसूर	01.02.09	31.01.12
27.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/ 5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र. का. कोषिकोड	के.आर./ 812	द आर्य वैद्य फार्मसी (कोयम्ब) लिमिटेड	01.11.08	31.10.11
28.	सं. 2/1959/क.नि.स.बी/ छूट/89/भाग-1/1892 दिनांक 27.01.2004	उप क्षेत्र. का. कोल्लम	के.आर./ 10315	केरल सिनरल्स एण्ड मेटल्स लिमिटेड, संकरमंगलम	24.06.09	23.06.12

एन. ए. नाथर
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
कृते तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

भुवनेश्वर-13, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. 44-यू-12/14/एम.आर.पी.टी.एम.आर/88(मेड)--क.रा.बी. निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 की बैठक में संकल्प पारित कर क.रा. बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अंतर्गत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदत्त एवं मुख्यालय के पत्र सं. यू-12/12/13/2005-मेड. I/पी टी एम आर दिनांक 09 सितम्बर 2008 द्वारा महानिदेशक के आदेश के तहत उक्त शक्तियाँ वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त को प्रत्यायोजित के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी ने एतद्वारा नीचे दिए गए तिथि से एक वर्ष तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक जो भी पहले हो, निम्नलिखित केन्द्र के क्षेत्रों के बीमाकृत व्यक्तियों की मेडिकल परीक्षा एवं मूल प्रमाणपत्र की सत्यता पर शक होने पर दूसरा प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजन से मानदंड के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर निम्नलिखित डॉक्टर को चिकित्सा प्राधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया है।

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. रबीन्द्र कुमार साहू	01.10.2009 से 30.09.2010	राउरकेला, राजगंगपुर एवं झारसूगुड़ा

डॉ. पी. सी. महापात्र
राज्य चिकित्सा आयुक्त

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 9th October 2009

SBD/No. 09/2009-10—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has in consultation with Reserve Bank of India nominated Shri Ashwani Kumar Gupta, 85 Green Park, Cool Road, Jalandhar, as a Director on the Board of Directors of State Bank of Patiala for a period of three years with effect from 9th October 2009 to 8th October 2012 (both days inclusive).

Mumbai :

O. P. BHATT
Chairman

UNION BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai-400021, the 8th October 2009

No. SMR/02—In exercise of powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition And Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Union Bank of India after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government propose to make the following amendments to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended upto 20th October, 2003, namely :—

1. **Short title and commencements-** (1) These Regulations may be called the Union Bank of India (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendments of Regulations 2 and 4.** -In the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended upto 20th October, 2003-

- (i) in regulation 2, for clause (p), the following clause shall be substituted, namely -

“(p)The words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Act or Schemes, or guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India, and the guidelines framed by the Reserve Bank in pursuant to the powers conferred on it under the proviso to clause (c) of sub-section (2B) of section 3 of the Act shall have same meaning respectively assigned to them in the Act or the Scheme or the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India or framed by the Reserve Bank, as the case may be”;

- (ii) after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely-

“4A (1) The bank may raise capital by public issue or preferential allotment or private placement of Equity Shares or Preference Shares.

- (2) The Bank shall formulate a proposal to raise capital in accordance with the guidelines, rules or regulations of the Securities and Exchange Board of India, relating to raising of such capital.

- (3) For raising capital by public issue or preferential allotment or private placement of Preference Shares, the extent of issue of each class of such Preference Shares (whether perpetual or irredeemable

or redeemable) and the terms and conditions subject to which each class of such Preference Shares that may be issued by the Bank shall be determined in accordance with the guidelines framed by the Reserve Bank in pursuant to the provisions contained in the proviso to clause (c) of subsection (2B) of section 3 of the Act.

- (4) The Bank shall submit the proposal to the Reserve Bank and take into account the views of the Reserve Bank before finalizing the proposal.
- (5) The final proposal shall thereafter be submitted to the Central Government for its sanction and the Central Government may grant sanction subject to such terms and conditions as it may deem fit.
- (6) The Bank shall raise capital in accordance with the sanction of the Central Government."

Foot Note : The Principal Regulation was published in the Gazette of India vide Notification No. 53 (Part III, Section 4) dated 08.05.2000 and subsequent amendments published in the Gazette of India vide Notification No.45 dated 08.11.2003.

MONIKA KALIA
Company Secretary

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi-110066, the 23rd September 2009

No. E-III/10(2)/09/MH/BAN—

In exercise of the Powers conferred by clause (a) Sub Section (4) of section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952, I, K. Chandramouli Central Provident Fund Commissioner hereby cancel w.e.f. 30/09/2008 the exemption granted under clause (a) of sub section (1) of section 17 of the EPF & MP Act 1952 vide notification No. E-102(19)E/A dated 17/10/1957 to M/s Century Textile & Industries Ltd. MH/BAN/96 having its Regd. office Century Bhavan, Dr. Annie besant Road, Worli, Mumbai-400025 for sufficient cause, which I consider appropriate, according to information laid before me.

K. CHANDRAMOULI
Central Provident Fund Commissioner

No.EPF/SO/ACC(TN&KR)/F.No.KR/02/2009 dated 23.09.2009

..... Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule – I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. Of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C Notification No. and dated shown against the name of each of the said establishment from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule – I against their names.

No.EPF/SO/ACC(TN&KR)/F.No.KR/02/2009

S.O whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) herein after referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner concerned from the operation of the said scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional P.F. Commissioner concerned and maintain such amount and provide such facilities for inspection, as the Central P.F. Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. May from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.
5. Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the respective Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the respective Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the respective Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

N. A. NAIR

Additional Central P. F. Commissioner

For and on behalf of Central P. F. Commissioner New Delhi

SCHEDULE-(I)

Sl. No	PREVIOUS NOTIFICATION	RO/SRO	CODE NO. KR/	NAME OF THE ESTABLISHMENT	PERIOD OF EXMPTION	
					FROM	TO
1	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.3.2007	RO-TVM	10782	Mukkadan's Restaurant Trivandrum	01.12.2005	30.11.2008
2	No.2/1959/DLI/Exem/89/PT- 1/992 dt.7.5.02	RO-TVM	12343	Keltron Communication Complex, Kulathur	01.07.2003	30.06.2006
3	No.2/1959/DLI/Exem/89/PT- 1/992 dt.7.5.02	RO-TVM	12344	Keltron Equipment Complex, Karakulam	01.07.2003	30.06.2006
4	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.3.2007	SRO-KK	1960	The Palakkad Dt. Co-Op Bank Ltd. Palakkad	01.03.2009	29.02.2012
5	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.3.2007	SRO-KK	17332	Veekey Polymers (P) Ltd. Kozhikode	01.03.2009	29.02.2012
6	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KK	10233	The Kozhikode Sarvodaya Sangh, Kozhikode	01.03.2009	29.02.2012
7	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.03.2007	SRO-KK	5110	The Uralungal Labour Contract Co-Op Society Ltd	01.03.2009	28.02.2012
8	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.03.2007	SRO-KK	11761	Madhyamam Dally, Kozhikode	01.03.2009	28.02.2012
9	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/1357 dated 20.2.2008	SRO-KK	254	Arya Vaidyasala, Kottakkal	01.05.2009	30.04.2012
10	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KC	10031	United Steamer Agents' Pool, Kochi	01.04.2008	31.03.2011
11	No.2/1959/EDLI/Exem/89/P t-1/ dated 22.1.2001	SRO-KTM	4392	Kerala Forest Development Corporation Ltd, Gavi.	01.12.2000 01.12.2003 01.12.2006	30.11.2003 30.11.2006 30.11.2009
12	No.2/1959/EDLI/Exem/89/P t-1/ 1002 dated 15.10.2004	SRO-KNR	4402	Keltron Crystals, Kannur.	01.06.2005	31.05.2008
13	No.2/1959/EDLI/Exem/89/P t-1/ 1002 dated 15.10.2004	SRO-KNR	4184	Keltron Magnetics Ltd. Kannur	01.06.2005	31.05.2008
14	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	SRO-KNR	18221	Poly Lab & X-Rays, Thalassery	01.03.2009	28.02.2012

15	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	SRO-KNR	18218	Poly Lab, Thalassery	01.03.2009	28.02.2012
16	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.03.2007	SRO-KNR	14123	Tely Medical Centre, Kannur	01.03.2008	28.02.2011
17	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.3.2007	RO-TVM	10128	Hotel Pankaj, Palayam	01.10.2008	30.09.2011
18	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	SRO-KNR	14050	Kunhikannan Jewellery Kannur	01.04.2009	31.03.2012
19	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KC	3265	The Keraia State Financial Enterprises Ltd.	01.04.2007	31.03.2010
20	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KC	4071	United Breweries Ltd., Alleppey	01.11.2008	31.10.2011
21	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KC	13565	Abad metro, Kochi	01.10.2008	30.09.2011
22	No.2/1959/EDLI/Exem/89/P t-1/ 1417 dated 29.12.2004	SRO-KC	15462	V.Star Creations Pvt. Ltd., Kochi	01.08.2007	31.07.2010
23	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KC	21292	Zerone Consulting Private Ltd., Kochi	01.12.2008	30.11.2011
24	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KC	3245	Polyclinic Pvt. Ltd., Thrissur	01.03.2009	28.02.2012
25	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KC	3375	Kerala Agro Machinery Corporation Ltd., Athani	01.12.2008	30.11.2011
26	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.3.2007	SRO-KC	13042	Malabar Building Products Ltd., Thrissur	01.02.2009	31.01.2012
27	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.3.2007	SRO-KK	812	The Arya Vaidya Pharmacy (CBE) Ltd.	01.11.2008	31.10.2011
28	No.2/1959/EDLI/Exem/89/P t-1/ 1892 dated 27.01.2004	SRO-KLM	10315	Kerala Minerals & Metals Limited, Sanjaramangalam	24.06.2009	23.06.2012

N. A. NAIR

Additional Central P. F. Commissioner

For and on behalf of Central P. F. Commissioner New Delhi

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Bhubaneswar-13, the 30th September 2009

No. 44-U-12/14/MR-PTMR/88 (Med)

In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting on 25.04.1951 conferring up on the director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to SSMC/SMC vide Director General's Order vide Hqrs. Office letter No.U-13/12/13/2005-Med.I/PTMR dated 09.09.2008 the undersigned hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, which ever is earlier, for centre as stated below to the areas as allocated for the purpose of medical examination of the Insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name of the doctor(s)	Period	Name of the centre
Dr. Rabindra Kumar Sahoo	01.10.2009 to 30.09.2010	Rourkela, Rajgangpur and Jharsuguda

P. C. MOHAPATRA
State Medical Commissioner